

नालको द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को लाभ

सूक्ष्म लघु उद्यमों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

- क) निविदा शुल्क के भुगतान से छूट।
 - ख) धरोहर जमा राशि से छूट।
 - ग) सामग्री की स्वीकृति की तारीख से 30 दिनों के अंदर भुगतान किया जाता है।
 - घ) उत्पादन प्रक्रिया/पद्धति आदि सहित तकनीकी अभिज्ञान तथा प्रबंधकीय मार्गनिर्देश प्रदान करना।
 - ङ) आयातित महत्वपूर्ण कच्चा माल तथा कलपुर्जे प्राप्त करने में मदद करना।
 - च) डिजाईन और विनिर्माण ड्राइंग बनाने, उपकरण के साँचे और फिक्चर, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं और उपकरणों आदि में उनकी सहायता करना।
 - छ) विभाजनयोग्य अथवा विभाज्य मात्रा के साथ एक निविदा में, प्रतिभागी योग्य सूक्ष्म लघु उद्यमों, जिन्होंने निम्नतम-1(एल-1) + 15% की मूल्य वर्ग के अंदर बोली लगाई है, उन्हें उनकी बोली की स्थिति के क्रम में एल-1 मूल्य के साथ मिलान करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है तथा निविदा मात्रा के 25% तक आपूर्ति के लिए वे क्रयादेश ले सकते हैं, यदि एल-1 बोलीदाता सूक्ष्म लघु उद्यम की अपेक्षा अन्य है।
 - ज) विभाजनयोग्य अथवा विभाज्य मात्रा के साथ निविदा में अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के सूक्ष्म लघु उद्यम की प्रतिभागिता के मामले में, सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए आरक्षित 25% निविदा मात्रा में से निविदा की न्यूनतम 6.25% मात्रा उन्हें क्रयादेश देने के लिए आरक्षित रहेगी, बशर्ते कि निविदा में एल-1 मूल्य के साथ मिलान हो।
और फिर, विभाजनयोग्य अथवा विभाज्य मात्रा के साथ निविदा में महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उद्यम की प्रतिभागिता के मामले में, सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए आरक्षित 25% निविदा मात्रा में से निविदा की न्यूनतम 3% मात्रा उन्हें क्रयादेश देने के लिए आरक्षित रहेगी, बशर्ते कि निविदा में एल-1 मूल्य के साथ मिलान हो।
- जब अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग / महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उद्यम से कोई प्रतिभागी भाग नहीं लें अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग / महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उद्यम एल-1 मूल्य के साथ मिलान नहीं करें, तो उनके लिए आरक्षित निविदा मात्रा अन्य सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यदि एक निविदा में इस प्रकार के एक से अधिक सूक्ष्म लघु उद्यम भाग लेने के मामले में, आपूर्ति बराबर हस्से में बाँट दी जाएगी। तथापि, यह की गई निविदा मात्रा के वितरण की विभाज्यता एवं उपयुक्तता पर निर्भर रहते हुए किया जा सकता है।